

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 1982/कार्तिक 25, 1904

No. 343]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 1982/KARTIKA 25, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन की रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग).

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1982

सं. 252/82-सीमा-शुल्क

सारणी

क्रम संख्या	सीमा-शुल्क अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची की शीर्ष सं.	टैरिफ	माल का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	शीर्ष संख्या 74.01/02		तांबा मेट और प्रधान मिश्र धातु	मूल्य का 60 प्रतिशत।
2.	शीर्ष सं. 74.01/02		अनगढ़ा तांबा (परिष्कृत या अपरिष्कृत)	मूल्य का 75 प्रतिशत
3.	शीर्ष संख्या 74.01/02		अपशिष्ट और रद्दी तांबा	मूल्य का 85 प्रतिशत
4.	शीर्ष संख्या 74.03		तांबे की गठी शलाकाएं कोण, आकृतियां और सैक्शन।	मूल्य का 80 प्रतिशत
5.	शीर्ष सं. 74.03		तांबे की तारें	मूल्य का 70 प्रतिशत

सं. कां. वि. 701(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट, शीर्ष सं. के अन्तर्गत आने वाले माल को, अब उनका अर्थ में आयात किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उस धारा की जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उतनी रकम से छूट देकी है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्संबन्धी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है उद्ग्रहणीय उक्त शुल्क से अधिक है।

1	2	3	4
6	शीर्ष सं० 74.03	तांबे की छड़ें	मूल्य का 75 प्रतिशत
7	शीर्ष संख्या 74 04/05	तांबे की गठी पट्टिकाएं बाबर, पतियां और पत्ते	मूल्य का 80 प्रतिशत
8	शीर्ष सं० 74 07/08	तांबे की ट्यूब और पाइप और उसके लिए पत्तर, तांबे की चाबूकी छड़ें, तांबे की ट्यूब और पाइप फिटिंग (उदाहरणार्थ ब्लाइट एस्को, साकेट और कुर्नेज) "	मूल्य का 80 प्रतिशत
9	शीर्ष सं० 74 09/19	तांबे की [धम्य वस्तुएं, मूल्य का 80 प्रतिशत जिनके अन्तर्गत लोहे या स्टील की कीलें, कीलिकाएं, स्टैपल चक्रण कीलें कटिघार कंप, बटन कांटे और घारेबन पिन हैं जिनके शीर्ष तांबे के हों।	

[फा० सं० 346/32/82-टी वार० यू० (सीबू)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th November, 1982

No. 252/82-CUSTOMS

G.S.R. 701(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the said duty leviable at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.	Description of goods	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Heading No. 74.01/02	Copper matte and master alloys	60 per cent ad valorem.

1	2	3	4
2.	Heading No. 74.01/02	Unwrought copper (refined or not)	75 per cent ad valorem
3.	Heading No. 74 01/02	Copper waste and scrap	85 per cent ad valorem.
4.	Heading No. 74 03	Wrought bars, angles, shapes and sections, of copper	80 per cent ad valorem.
5.	Heading No. 74.03	Copper wires	70 per cent ad valorem
6.	Heading No. 74.03	Copper rods	75 per cent ad valorem.
7.	Heading No. 74.04/05	Wrought plates, sheets, strip and foil, of copper	80 per cent ad valorem.
8.	Heading No. 74.07/08	Tubes and pipes and blanks therefor, of copper; hollow bars of copper; tube and pipe fittings (for example, joints, elbows, sockets and flanges), of copper.	80 per cent ad valorem.
9.	Heading No. 74.09/19	Other articles of copper including nails, tacks, staples, hook-nails, spiked cramps, studs, spikes and drawing pins of iron or steel with heads of copper.	80 per cent ad valorem.

[F. No. 346/32/82-TRU(Cus)]

सं० 253/82-सीमा-मुल्क

सा० का० नि० 702(ब).—केन्द्रीय सरकार सीमा-मुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 82) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा कृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि शोकाहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 122-सीमा-मुल्क तारीख 21 जून, 1978 में निम्न-लिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "मूल्य का 45 प्रतिशत" शब्दों और धर्ती के स्थान पर "मूल्य का पचाहत्तर प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० 346/32/82-टी वार यू]

No. 253/82-CUSTOMS

G.S.R. 702(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 122: Customs, dated the 21st June, 1978, namely:—

In the said notification, for the figures and words "45 per cent. ad valorem", the words "seventy five per cent. ad valorem" shall be substituted.

[F. No. 346/32/82-TRU]

सं० 254/82-सीमा-शुल्क

सा० क्र० नि० 703(ख).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 44 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि जोरहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निवेदन देती है कि इससे उत्पाद सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त विभाग (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधित और संशोधन की जाएंगी।

सारणी

क्रम	अधिसूचना सख्या और वर्ष	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1	133/82-सीमा-शुल्क तारीख 11 मई, 1982	उक्त अधिसूचना में उत्पाद सारणी में क्रम सं० 8 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों का जोड़ किया जाएगा।
2	136/82-सीमा-शुल्क तारीख 11 मई, 1982	उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 109 और 219 और उनसे सम्बद्ध प्रविष्टियों का जोड़ किया जाएगा।

[क्र० सं 346/32/82-टी आर यू (सी शु)]

No. 254/82-CUSTOMS

G.S.R. 703(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 44 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)
1. 133/82-Customs, dated the 11th May, 1982.	In the Table annexed to the said notification, Sl. No. 6 and the entries relating thereto shall be omitted.
2. 136/82-Customs, dated the 11th May, 1982.	In the Schedule to the said notification, Sl. No. 109 and 219 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F.No. 346/32/82-TRU (Cum)]

सं० 255/82-सीमा-शुल्क

सा० क्र० नि० 704(ख).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि जोरहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के, यथास्थिति, राजस्व और बैंकिंग विभाग या वित्त विभाग (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं का निरस्त करने के अर्थ में,

- क्र० सं 97-सीमा-शुल्क, तारीख 25 जून 1977
- क्र० सं 108-सीमा-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977
- क्र० सं 156-सीमा-शुल्क, तारीख 16 अगस्त, 1977
- क्र० सं 36/82-सीमा-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982

[क्र० सं 346/32/82-टी आर यू]

NO. 255/82-CUSTOMS

G.S.R. 704 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking or in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as the case may be, namely:—

- No. 97—Customs, dated the 25th June, 1977.
- No. 108—Customs, dated the 1st July, 1977.
- No. 156—Customs, dated the 16th July, 1977.
- No. 36/82—Customs, dated the 28th February, 1982.

[F. No. 346/32/82-TRU]

सं० 276/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० क्र० नि० 705(ख).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 266 की उपमद (1), (1क) और (1ख) के अन्तर्गत आने वाले तामे की उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उपग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम से छूट देती है जितनी प्रति मीटरी टन मीन ह्वार रुपये की दर से संगठित रकम से अधिक है।

[क्र० सं 346/32/82-टी आर यू (सी शु)]

NO. 276/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 705(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts copper, falling under sub-items (1), (1a) and 1(b) of Item No. 26A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of three thousand rupees per metric tonne.

[F. No. 346/32/82-TRU (Cum)]

नं० 277/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

NO. 277/82-CENTRAL EXCISES

सं० फा० नि० 706(अ) - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विनियम 1944 के विनियम 8 के अधिनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सं० 277/82-उत्पाद शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रस्तावित संशोधन की मद सं० 26 के उपमद (3) के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न वस्तुओं की उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उत्पाद शुल्क में विनिर्दिष्ट दर से उद्घटनीय उत्पाद-शुल्क की उतनी राशि में छूट देता है जिससे प्रति मीटरो टन तीन हजार सात सौ रुपये का दर से संगणित राशि में अधिक है।

[फा० नं० 346/32/82-टी.आर.यू.सी.ए.]

जं० श्रीधरन, अवर सचिव

G.S.R. 706(F):—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts manufactures of copper, falling under sub-item (2) of Item No. 26A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of three thousand and seven hundred rupees per metric tonne.

(F. No. 346/32/82-TRU(Cus))

J. SRIDHARAN, Under Secy.